

Date: August 21, 2025

1. The Manager-Listing
National Stock Exchange of India Limited

(Scrip Symbol: NAUKRI)

2. The Manager-Listing BSE Limited

(Scrip Code: 532777)

Dear Sir/Madam,

Subject: Intimation of Publication of Notice regarding launch of 100 days Campaign - "Saksham Niveshak"

Pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith e-copies of the newspaper publication, intimating the Notice to the Shareholders regarding launch of **100 days Campaign - "Saksham Niveshak"** pursuant to the directive of the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), Ministry of Corporate Affairs, aimed at assisting shareholders in the following:

- Updating their Know Your Customer (KYC) details, including bank account mandates, nominee registration, and contact information (email ID, mobile number, and address); and
- Claiming any unpaid/unclaimed dividends for past financial years, thereby preventing the transfer of such dividends and the related shares to the IEPFA.

This campaign also seeks to proactively support shareholders in safeguarding their entitlements by facilitating the necessary updates and claims before any transfer to the IEPFA takes place.

Details of the said campaign and the unclaimed dividends are also available on the Company's website and can be accessed at https://www.infoedge.in/InvestorRelations/Investor Services CS

The details as aforesaid are published in the following editions:

- Business Standard (English Newspaper) on August 21, 2025
- Business Standard (Hindi Newspaper) on August 21, 2025

Kindly take the same on record

Thanking you,

Yours faithfully,

For Info Edge (India) Limited

Jaya Bhatia Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

ABAN OFFSHORE LIMITED ADAI Regd. Office – Janpriya Crest, 113, Pantheon Road, Egmore, Chennai - 600 008. CIN: L01119TN1986PLC013473 Tel No.044-49060606 Fax: 044-28195527 website: www.abanoffshore.com

PUBLIC NOTICE

otice is hereby given that the 39th Annual General Meeting("AGM") of the Shareholders of the Company will be held of tendesday, the 24th September 2025 at 10.15 A.M. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM").

Wednesday, the 24th September 2025 at 10.15A.M. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM").
The Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its circular No. 9/2024 dated 19th September, 2024, read with circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January 2021, 8th December 2021, 28th December 2022 and 25th September 2023, Hence, Members can attend and participate at the ensuing AGM through VC/OAVM.
Notice of the AGM, together with the Annual Report for the financial year 2024-25, have been sent in electronic form on 20th August 2025, in accordance with the relaxation granted by the Securities and Exchange Board of India vide Circular dated 33rd October 2024, to all the shareholders whose names appear on the Register of Members /ilst of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as at the close of business hours on 15th August, 2025 and who have registered their email id with the Company Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 will also be available on the Company's website at www.abanoffshore.com, website of National Security Depository Limited (NSDL) at the Wewtonian, website of SEC.

The instructions for joining the AGM are provided in the Notice. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. read with the Companies (Management and Inc Compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Inc Compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and

exounted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 acad with the Companies (Management an Administration) Rules, 2014 the Company has offered electronic voting facility (remote e-voting) for transacting the busines through National Securities Depository Limited [NSDL] to enable the members to cast their vote elornoically. Additionally, the facility for voting through electronic means shall also be made available at the time of the meeting and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be exercise their right at the meeting. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the meeting are provided in the Notice.

or remote e-voung and e-voung at the meeting are provided in the Notice.

Members whose names appear on the Register of Members (Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as or he Cut Off Date for voting, i.e. 17th September 2025, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /e-voting at the AGM Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice but before the cut-off date or voting; i.e. 17th September 2025 may obtain the login Id and password by sending a request to eviding nost come roctnacting our Registrar & Sharer Transfer Agents viz. Cameo Corporate Services Limited, "Subramanian Building", No.1 Club House Road Chennai 600 002. Phone: +91 044 28460390 (5 lines); Fax:+91 044 28460129; Email: investor@cameoindia.com.

The remote e-voting commences on Sunday the 21st September 2025 (9.00 A.M) and ends on Tuesday, the 13rd September 2025 (5.00 P.M).

dembers will not be able to cast their vote electronically beyond the said date and time (i.e after 5.00 P.M on Tuesday 23r eptember 2025) and the remote e-voting module shall be disabled for voting by NSDL thereafter.

14.6. G. Ramachandran & Associates, Practicing Company Secretaries Chennai has been appointed as Scrutinizer for the remote voting process /voting at the AGM.

mbers who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote agai he Members who have cast their vote by remote e-voining may attent uner insetting but shall include mineral to be assumed to easily the fembers whose email addresses are not registered are requested to register in e-mail addresses with the respect epository participants and members holding shares in physical mode are requested to register their e-mail addresses with to remail to investor@cameoindia.com
ony Ouery /Grievance in relation to voting by electronic means can be addressed to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 301, 3
of the continuous manager of the manager of the state of the continuous manager of the state of the continuous manager of the state of th

(By Order of the Board) S N Balaji Deputy General Manager (Legal) & Secreta ate : 20.08.202

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR ASSIGNMENT OF DEBT

Asset Reconstruction Company (India) Limited (acting as trustee of Arcil-SBPS-008-III Trust) (hereinafter referred to as "Arcil") being a secured creditor vide Assignment Agreement dated September 28, 2021, under the provisions of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 "SARFAESI Act, 2002), invites all eligible Asset Reconstruction Companies "Party"/ "Bidder") under the extant Reserve Bank of India guidelines for sale of the below mentioned Non-Performing Asset. Detailed Terms and Conditions of the process are captured in the Process Document which will be shared with the eligible bidders

The sale will be on 100% cash basis and the auction shall be through "Swiss Challenge Process" on "As is where is", "As is what is" "Whatever there is" and "Without recourse basis under the SARFAFSI Act 2002 based on an existing offer Brief details of the Financial Asset are given below:

	•	(Rs in crore)		
Sr. No.	Name of Borrower	Anchor Bid*	EMD	
1.	Tarun Realtors Private Limited	71.98	7.2	

*Details provided in Bid Process Document, Reserve Price shall be at a mark-up of 10%

The eligible bidders who wish to participate in the said Swiss Challenge process to acquire Arcil's portion of debt in the above mentioned account shall submit their bids to Arcil in such form and manner as may be specified by Arcil in the bid process documents The anticipated timelines for the auction process are as detailed below

Sr. No.	Activity	Indicative Date			
1.	Advertisement Date / Expression of Interest ("EOI") start date	August 21, 2025			
2.	Last Date of Submission of EOI along with other documents	On or before August 26, 2025 – before 6 pm			
3.	Last date for accessing data room for due diligence by eligible bidders (eligible participants who have submitted EOI along with all required documents to the satisfaction of Arcil)	September 05, 2025 – before 6 pm			
4.	Submission of binding bids by email (Password Protected only) along with the EMD or physical bids to reach Arcil's office	September 10, 2025 – before 1 pm			
5.	Opening of bids	September 10, 2025 – Post 3 pm onwards			
6.	Date of Swiss Challenge (through E-Auction platform. Timings will be shared separately)	September 11, 2025			
7.	Exercise of right of first refusal ("ROFR") by Anchor Bidder within one day	September 12, 2025			
8.	Declaration of Successful Bidder	September 12, 2025			
9.	Execution of Assignment Agreement	As may be mutually agreed between Arcil in discussions with the Successful Bidder.			
In case of any query or any clarification, you may contact the following authorised					

representatives: Praful Kalika (praful.kalika@arcil.co.in); Angira Bhattacharjee (angira bhattacharjee@arcil.co.in)

Please note that sale of Non-Performing Asset shall be subject to the terms and conditions as stated in the bid process document and Arcil reserves the right to cancel/ modify the terms of this sale at any time

> For Asset Reconstruction Company (India) Limited As trustee of Arcil-SBPS-008-III-Trust



Godrej Consumer Products Limited

Godrej One, 4th Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (E), Mumbai 400 079.

Tel: 25188010/20/30, Fax: 25188040 E-mail: investor.relations@godrejcp.com, Website: www.godrejcp.com CIN: L24246MH2000PLC129806

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Launch of "Saksham Niveshak" Campaign – Action required for **Unclaimed Dividends and KYC Updates**

Notice is hereby given to the Shareholders that pursuant to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), Ministry of Corporate Affairs (MCA) letter dated 16th July, 2025, Godre Consumer Products Limited is pleased to announce the commencement of a 100-day special outreach initiative titled "Saksham Niveshak" which is on from 28th July, 2025 till 6th November, 2025.

This campaign is being undertaken to facilitate Shareholders in updating Know Your Customer (KYC) details including:

- a) Bank account mandates
- b) Nominee registration
- c) Contact information (e-mail, mobile number, address)

This campaign is also being undertaken to facilitate the Shareholders to claim their Unpaid / Unclaimed Dividends for any Financial Year in order to prevent their dividend amount and Equity Shares being transferred to IEPFA.

Action Required

Shareholders who have unclaimed dividends or have incomplete KYC records are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) at the earliest:

MUFG Intime India Private Limited

(Formerly Link Intime India Private Limited) C-101, Embassy 247, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400083

Phone: (0) 8108116767 Website:

https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/Service_Request.html

Important Advisorv

As per applicable provisions, if dividends remain unclaimed for a period of 7 (Seven) consecutive years, the dividend amounts, and corresponding base shares (if any) are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA).

We strongly urge all Shareholders to take prompt action during the campaign period to safeguard their entitlements and ensure compliance with statutory requirements.

For Godrej Consumer Products Limited

Teial Jariwala

Company Secretary & Compliance Officer Date: August 20, 2025 (FCS 9817) Place: Mumbai

MPL

MAITHON POWER LIMITED

(Contracts Department) Maithon Power Ltd, Village: Dambhui, PO Barbindia, PIN-828205, District-Dhanbad **NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST**

The Maithon Power Limited, a joint venture between Tata Power and DVC invites expression of interest from eligible vendors for the following packages: S. No. Ref. No Package Description Supply and Installation of CCTV Surveillance Cameras for MPL plant 2000088115 Coal Road Maintenance work for MPL plant, Jharkhand. 2000087129 Construction of Retaining wall near Hydrobin at MPL plant, Jharkhand

For details of pre-qualification requirements, bid security, purchasing of tender documen etc., please visit our website URL- https://www.tatapower.com/tender Eligible vendors willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee for issue of bid document latest by 31-Aug-25.

♣Transpek Transpek Industry Limited

CIN: L23205GJ1965PLC001343

Registered Office: 4th Floor, Lilleria 1038, Gotri - Sevasi Road, Vadodara - 390021.

NOTICE

100 Days Campaign - "Saksham Niveshak" - for KYC and other related updations and shareholders engagement to prevent transfer of Unpaid / Unclaimed dividends to Investor Education and **Protection Fund ("IEPF")**

Notice is hereby given to the shareholders of Transpek Industry Limited that pursuant to Investor Education and Protection Authority ("IEPFA"), Ministry of Corporate Affairs ("MCA") letter dated 16th July, 2025, your Company has started a 100 days campaign "Saksham Niveshak" from 28th July, 2025 to 6th November, 2025.

During this campaign, all the Shareholders who have not claimed their Dividend or have not updated their KYC & nomination details or face any issues related to Unpaid/Unclaimed Dividends and KYC formalities may write to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) at:

MUFG Intime India Private Limited

"Geetakunj", 1, Bhakti Nagar Society, Behind ABS Tower, Old Padra Road, Vadodara 390015, Gujarat, India. Tel: +91 265 3566768,

E-mail: vadodara@in.mpms.mufg.com **Website**: www.in.mpms.mufg.com

The shareholders may further note that this campaign has been started proactively to reach out to the shareholders of the Company to register / update their KYC, bank mandates, Nominee and Contact information and claim their unclaimed / unpaid dividend in order to prevent their shares and dividend amount from being transferred to **IEPFA**

> For Transpek Industry Limited, Sd/-

Place: Vadodara Alak D. Vyas Date: 21.08.2025 **Company Secretary and Compliance Officer**

Shaily Engineering Plastics Limited SHAILY

CIN: L51900GJ1980PLC065554

Regd. Office: Survey No. 364/366, At & Po. Rania, Ta. Savli, Dist. Vadodara - 391780, Gujarat, India Phone No.: +91 7574805122 / 181 E-mail: investors@shaily.com Visit us: www.shaily.com

NOTICE

100 Days Campaign - "Saksham Niveshak" - for KYC and other related updations and Shareholder engagement to prevent transfer of Unpaid / Unclaimed dividends to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

Notice is hereby given to the Shareholders of Shaily Engineering Plastics Limited ("the Company") that pursuant to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA"), Ministry of Corporate Affairs ("MCA") letter dated July 16, 2025, the Company has initiated a 100 days campaign "Saksham Niveshak" from July 28, 2025 to November 06, 2025.

During this Campaign, all the Shareholders who have not claimed their Dividend or have not updated their KYC & Nomination details or facing any issues related to Unpaid / Unclaimed dividends and KYC formalities may write to the Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA") at:

Bigshare Services Pvt. Ltd., Office No: S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre,

Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400093. Tel.: 022 - 62638200 **E-mail**: investor@bigshareonline.com **Website**: www.bigshareonline.com

The shareholders may further note that this campaign has been started proactively to reach out to the Shareholders of the Company to register / update their KYC, bank mandates, Nominee and contact information etc; and claim their unpaid / unclaimed Dividend to prevent their shares and dividend amount from being transferred to the IEPFA.

For Shaily Engineering Plastics Limited

(M.No.: A-50950)

Harish Punwani Place: Vadodara **Company Secretary** Date: August 20, 2025

info**edge** INFO EDGE (INDIA) LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC068021 | Regd. Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-19 Corp. Office: B-8, Sector-132, Noida-201304 (Uttar Pradesh) | Tel: +91-120-3082000; Fax: +91-120-3082095 Website: www.infoedge.in; Email: investors@naukri.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING 100 DAYS CAMPAIGN - "SAKSHAM NIVESHAK"

The Shareholders of the Company are hereby informed as per the directions of Investor Education and Protection Fund Authority ('IEPFA'), Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), Government of India, letter dated July 16, 2025, Info Edge (India) Limited (the 'Company') has initiated '100 days Campaign - Saksham Niveshak' from July 28, 2025 to November 6, 2025, for the shareholders,

whose dividends are unpaid/unclaimed.

Date: August 20, 2025

Place: Noida

The shareholders may note that this campaign has been initiated specifically to reach out to the shareholders of the Company to encourage and enable them to claim unpaid or unclaimed dividends and to update their KYC, bank mandates, Nominee and contact information. The shareholders are therefore requested to update their details and claim unpaid/unclaimed dividend in order to prevent their shares or dividend from being transferred to IEPFA.

Since dividends on shares are payable only through electronic mode for shareholders with unpaid or unclaimed dividends, the amount will be credited to the shareholder's bank account only after the required information/documents are updated. Physical shareholders are requested to complete their KYC updates accordingly. Further Shareholders holding shares in electronic form and have not claimed their dividend, can claim the same by updating/ modifying their details with their respective Depository Participants.

All the shareholders who have unpaid/unclaimed dividend or those who are required to update their KYC, bank mandates, Nominee and contact information are requested to download forms from <u>https://web.in.mpms.mufg.com/client-downloads.html</u> or from Company's website at https://www.infoedge.in/InvestorRelations/Investor_Services_CS and submit signed form along with the KYC documents to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company:

By post: Physical copies, self-attested, dated and addressed to MUFG, Noble Heights, 1st Floor, ot NH2 C-1 Block LSC, Near Savitri Market Janakpuri, New Delhi 110058;

By email: From your registered email ID, with digitally signed documents (first joint holder must sign in case of joint holdings) to: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

To support the success of this campaign, kindly submit your documents by November 6, 2025. For any assistance regarding the 100 days Campaign-"Saksham Niveshak" please do reach out to the Company at investors@naukri.com

> By Order of the Board of Directors For Info Edge (India) Limited

Jaya Bhatia **Company Secretary & Compliance Officer**

Mahindra LIFESPACES

Mahindra Lifespace Developers Limited

Registered Office: 5" Floor, Mahindra Towers, Worli, Mumbai 400 018; Tel: 022- 67478600 E-mail: investor.mldl@mahindra.com; Website: www.mahindralifespaces.com Corporate Identity Number: L45200MH1999PLC118949

100 Days Campaign – "Saksham Niveshak" – for KYC and other related updation and shareholder engagement to prevent transfer of Unpaid/Unclaimed dividends to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

Notice is hereby given to the Shareholders of Mahindra Lifespace Developers Limited ("the Company") that pursuant to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA"), Ministry of Corporate Affairs ("MCA") letter dated July 16, 2025, the Company has started a 100 days campaign "Saksham Niveshak" starting from July 28, 2025 to November 6, 2025. During this campaign all the shareholders who have not claimed their Dividend or have not updated their KYC & nomination details or face any issues related to unclaimed dividends and shares may write to the Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA") i.e. Kfin Technologies Limited at their address Selenium Building, Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Hyderabad – 500032 or at email id: einward.ris@kfintech.com or on Tel: 91 40 67162222 or call Kfin's toll free no. 1800-345-4001, website at www.kfintech.com and further email to be sent to the Company at email id: investor.mldl@mahindra.com.

The Shareholders may further note that this campaign has been started proactively and specifically to reach out to the shareholders to update their KYC, Bank mandates, Nominees and contact information, etc. and claim their unpaid/unclaimed dividend in order to prevent their shares and dividend amount from being transferred to IEPFA.

For MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LIMITED

Place: Mumbai Date- August 21, 2025

Snehal Pati Interim Company Secretary & Compliance Officer



IRIS Business Services Limited

Registered Office: T-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi - 400703, Maharashtra, India Tel: +91 22 67231000, Email: cs@irisbusiness.com, Website: www.irisbusiness.com, Fax: +91 22 2781 4434 CIN: L72900MH2000PLC128943

INFORMATION REGARDING THE ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

Shareholders may note that the Annual General Meeting ('AGM') of the Shareholders of IRIS Business Services Limited ('the Company') is scheduled to be held on Tuesday, September 23, 2025, at 11.00 a.m. (I.S.T.) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio-Visual Means (OAVM), to transact the business that will be set forth in the Notice of AGM. The Ministry of Corporate Affairs ('MCA') has, vide General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 08, 2021, General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 (collectively referred as 'MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (collectively referred as 'SEBI Circulars') (collectively referred as 'Circulars') allowed the companies to hold AGM through VC/ OAVM. In compliance with the Circulars, the AGM of the Company will be held through VC/ OAVM and accordingly business shall be transacted through such voting without the physical presence of the Shareholders at a common venue.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, Notice of the AGM will be sent through electronic mode to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company / Depository Participants. The requirement of sending physical copies of the Notice of AGM has been dispensed vide above mentioned MCA Circulars and SEBI Circulars. However, the physical copies of the Notice of the AGM shall be sent to the Shareholders, who request for the same at cs@irisbusiness.com.

Shareholders may note that the Notice of AGM will also be made available on the website of the Company at www.irisbusiness.com, BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

Manner of Voting:

The Company is pleased to provide the facility of e-voting to its Shareholders, to enable them to cast their votes on the resolution set out in the Notice of AGM. Shareholders have the option to cast their votes on the resolutions using the remote e-voting facility or e-voting during the AGM (collectively referred as 'e-voting'). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ('NSDL'), for providing the e-voting facility to its Shareholders. Detailed instructions for e-voting will be provided in the Notice of the AGM.

$\textbf{Registration of email address with the Company} \, / \, \textbf{Depository Participants:} \\$

- I. Shareholders whose Email IDs are not registered with the Company / Depository Participants, shall provide their email IDs by sending an email to Company at cs@irisbusiness.com or the Registrar and Share Transfer Agents of the Company MUFG Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com, necessary details as listed below for registration of Email IDs and procuring User ID and Password for the purpose of remote e-voting / e-voting at the AGM -
- a. For Physical shareholders Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back);
- b. For Demat shareholders Demat account details (CDSL 16-digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement and self-attested scan copy of PAN and AADHAR. 2. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register/
- update their e-mail addresses with their relevant Depository Participants.

Additional Information for the benefit of Shareholders: **Updation Details:**

SEBI has mandated the updation of PAN, contact, Bank account, specimen signature and nomination details, against folio / demat account. PAN is also required to be updated for participating in the securities market, deletion of name of deceased holder and transmission / transposition of shares. As per applicable SEBI Circular, PAN details are to be compulsorily linked to AADHAR details by the date specified by Central Board of Direct Taxes. Shareholders are requested to submit PAN or intimate all changes pertaining to their bank details, mandates, nominations, power of attorney, change of address, change of name, e-mail address, contact numbers, specimen signature (as applicable) etc., to their Depository Participant ("DP") in case of holding in dematerialised form or to Company's Registrar and Share Transfer Agents through Form ISR-1, Form ISR-2 and Form ISR-3 (as applicable) available at www.irisbusiness.comin case of holdings in physical form.

Special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares till

Pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, the Company has opened a special window exclusively for the re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/returned/not attended due to the deficiency in the documents/process/or otherwise. The special window will remain open for a period of six months from July 07, 2025 to January 06, 2026

Please find the circular below for your reference and necessary action:

https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jul-2025/ease-of-doing-investment-specialwindow-for-re-lodgement-of-transfer-requests-of-physical-shares 94973.htm

Re-lodgement of legally valid and complete documents for transfer of physical shares, where there is no dispute on ownership will be considered. Shareholders of the Company may submit their request till January 06, 2026, with the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company.

Shareholders are encouraged to take advantage of this one-time window. The transfer request of physical shares can be re-lodged with our Registrar and Share Transfer Agenda (RTA) within the above-mentioned period at the following address

The details of RTA are as under: MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited), C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India, Telephone No.: +91-22-49186000, E-mail: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

During this period, the securities that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode. Shareholders must have a demat account and provide its Client Master List ('CML'), along with the transfer documents and share certificate, while re-lodging the transfer request with RTA. Due process shall be followed for such transfer-cum-

We reiterate that re-lodgement will be allowed only in those cases where transfer deed for physical shares were lodged before April 01, 2019 and were rejected/returned/not attended due to the deficiency in the documents/process/or otherwise.

For any further information or clarification, Shareholders may kindly contact at cs@irisbusiness.com. The above information is being issued for the benefit of all the Shareholders of the

Company and as per the Circulars issued by the MCA and SEBI.

Place: Vashi, Navi Mumbai

Date: August 20, 2025

By Order of the Board of Directors of For IRIS Business Services Limited

Santoshkumar Sharma

Company Secretary & Compliance Officer Membership No. ACS 35139



702.सेवंथ फ्लोर, यनिक एस्पायर,प्लाट नं. 13-14. कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपर - 302021 सिक्योरिटाइजेशन अधिनियम २००२ की धारा १३ (२) के अन्तर्गत मांग सुचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता फिनोवा केपिटल प्रा. लिमिटेड के प्राधिकारी अधिकारी है। विलीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनगठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों को गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के

अनुसार ऋणीयों /सह-ऋणीयों /गारण्टर /बंधककर्ता (जिन्हें आगे ऋणी / ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जावेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे

नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शाक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा-13

उपधारा-४ व धारा-१४ के अन्तर्गत कदम उठाने हेत स्वतंत्र होगा । जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विकय

करना सम्मिलित है। अत: आप ऋणीयों को सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज, खर्चो एवं लागतों इत्यादि के

साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दे। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात धारा-1:

(13) के अनुसार प्रतिभृत लेनदार की पूर्व लिखित सूचना के बिना अपनी प्रतिभृत आस्तियों को विक्रय, पट्टे अथवा किसी भी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे।

ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है. कि उक्त अधिनियम की धारा-13(8) के अनसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खचो

बंधक सम्पत्ति का विवरण

अचल संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित 4 मारला. खेवट नं

560/532, खतोनी नं, 657, परिवर्तित नं, 34, किला नं,

22/1 (3-5), 27/1 (0-7) मौजा धौज, उप तहसील

धौज, जिला फरीदाबाद हरियाणा, क्षेत्रफल 121 वर्गगज

प्राधिकृत अधिकारी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

ई--नीलामी तिथि:- 09-09-2025 पर्वा 11:00 बजे से दोप

12:00 बजे के बीच, 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ,

केवाईसी के साथ धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने की अंति

तिथि : 08-09-2025 अप. 5:00 बजे तक (आईएसटी)

पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 4:00 बजे (आईएसटी) के बीच

घरोहर राशि जमा रु. **3,50,000/**—(रूपये तीन लाख प

बोली वृद्धि - रु. 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार माट्र

हजार मात्र) होगी। सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत

ई-नीलामी तिथि :- 09-09-2025 पर्वा 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे व

बोली वृद्धि – रु. 25,000 / – (रूपये पच्चीस हजार मात्र) एवं इसके गुणकों

प्राधिकृत अधिकारी (अजय मित्तल) बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

निरीक्षण की तिथि : 21-08-2025 से

यानी 83.61 वर्ग मीटर ग्राम सुरक्षित मूल्य : अचल संपत्ति के लिए रू. 35,00,000

एवं इसके गुणकों में

खंड : पलैट नंबर 1 प्रथम केवाईसी के साथ धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि

के, परिमाप 60 वर्ग गज, **निरीक्षण की तिथि :** 21–08–2025 से 08–09–2025 पूर्वा. 11:00 बजे से

एन्क्लेव, ग्राम छपरौला, **सुरक्षित मूल्यः अचल संपत्ति के लिए रु. 18,65,000/—** (रुपये अठारह लार

जिला, गौतम बुद्ध नगर, **घरोहर राशि जमां रु. 1,86,500/—** (रूपये एक लाख छियासी हजार पांच र

(रुपये पैंतीस लाख मात्र)

प्रभारों और व्ययों के हित प्रतिभूत लेनदार द्वरा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है ।

13 (2) के अधीन मांग

राशि एवं दिनांक

13.08.2025

₹ 21.07.202/-

दो सौ दो रूपये मात्र

बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

भाषार भाषार भाषात्व । तरक्षम आइटा पाक बान्य बारकम्, ठवा तल, कल्याणा नगर, युग, नहाराष्ट्र न वा 1014, **शाखा कार्यातव्य :** बाजाज हाउसिंग फाइनेंस विमिन्देह, 451 चुवुं तल, अग्रवात, मिलेनियम टावर, नेताजी सुमाप पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली—110034, **प्राधिकृत अधिकारी का विवरण : नाम :** अजय मित्तल, **ईमेल आईडी :** ajay.mittal@bajajhousing.co.in

मोबा. नं. +91 9855733149, 8669189048 परिशिष्ट IV—A [नियम 8(6)] अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रतर्तन अधिनेयम २००२ के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ के नियम ८(६ के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के संबंध में ई-नीलामी बिक्री सूचना

तरद्वारा सर्वभावारण को और विशेष रूप से कर्जदार (कर्जदारी) और गारंटर (गारंटरी) को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो प्रतिमृत लेनद

के पास बंधक / प्रमारित हैं, जिसका भौतिक कब्जा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिमृत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बकाया ऋण राशि, लागू ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "जो कुछ है वहां है" औ

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :

तम्पूर्ण द्वितीय तल, छत के

अधिकार नहीं, प्रॉपर्टी नंबर बी

127, खसरा नंबर 80 / 15 / 2,

पालम कालोनी महावीर एन्क्लेव

के नाम से मशहूर, नई

अनुसूची सम्पत्ति ई—नीलामी तिथि :— 09—09—2025 पूर्वा 11:0 **सम्पत्ति के समी अंश एवं** बीच, 5 मिनट के असीमित विस्तार के साध,

तल बिना छत के अधिकार 08-09-2025 अप 5:00 बजे तक (आईएसटी)

खसरा नंबर 55, तिरुपति 4:00 बजे (आईएसटी) के बीच

• सार्वजनिक नीलाभी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसाए हैं : • प्रतिभूत आस्ति का विक्रय सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जायेगा। • नीलामी बिक्री ई्-नीलार्भ

आगे 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ सम्पन्न होगी। 🗨 विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया कम्पनी की वेबसाइट युआरए

माध्यम से ऑनलाइन होगी। ई-नीलामी पोर्टल https://bankauctions.in के माध्यम से 09-09-2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक औ

अनुसूची सम्पत्ति

रिमाप 100

दिल्ली-110045

परगना और तहसील दादरी

https://www.bajajhousingfinance.in/auction-notices देखें अथवा किसी स्पष्टीकरण के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।

उत्तर प्रदेश–201009

कार्पोरेट कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी-2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र — 411 014, बा कार्यालय : बजाज हाजसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 451, चतुर्ध तल, अग्रवाल, मिलेनियम टावर, नेताजी सुमाष पैलेस,

ऋणी ⁄सह-ऋणी एवं गारण्टर

का नाम एवं पता

शाहिद (सहऋणी), श्री याकूब पुत्र चित्रू (गारंटर)

शाहिद पुत्र सुबे खान (ऋणी), श्रीमती अमीना पत्नी इक्कीस लाख सात हजार

"कोई आश्रय नहीं आधार पर" बेची जाएगी। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

कर्जदार/सह–कर्जदारों का विवरण

एलएएन : H401HHL0984160 तथा

महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली-110045

13-06-2025 की प्रभावी तिथि से आगे

एलएएन : H581HHL1060660 और

1. संदीप कुमार (कर्जदार)

2 तन तन (सह-कर्जदार)

बकाया राशि : रु. 43.70.085 /- (रूपए तेतालीर

पता : मकान नंबर 6/96, ब्लॉक 6, निकट बाल्मीकि मंदिर, खिचड़ी पुर, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली–110091

2 तपु तपु (तक-कजबार) मकान नंबर 6/96, ब्लॉक 6, निकट बाल्मीिक मंदिर खिचड़ी पुर, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली—110091

बकाया राशि: रु. 27.17.890 /- (रूपए सत्तार्दस

लाख सत्रह हजार आठ सौ नब्बे मात्र)

की पभावी तिथि से आगे ब्याज और प्रभार

दिनांक : 21-08-2025) स्थान : दिल्ली

12-06-2025 तक + 12-06-2025

लाख सत्तर हजार पिचासी मात्र) 13-06-2025 तक +

H401HLT046485

स्थानः फरिदाबाद, हरियाणा

(ऋण खाता संख्या)

दिनांकः २०-०८-२०२५

B FINSERV

FINDLALONS000005007994.

SHRIRAN

SHRIRAM City

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

गंजीकत कार्यालय : श्री टॉवर्स, प्लॉट नं. 14ए, साउथ फे इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई 600 032 शाखा कार्यालयः प्लॉट संख्या 156, द्वितीय तल, एलन सोर्ल शोरूम के ऊपर, राठौर नगर, वैशाली जयपुर 302021 वेबसाइट : www.shriramfinance.in

सांकेतिक कब्जा सूचना

नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसा 'श्रीराम सिटी युनियन फाइनेंस लिमिटेड'' को ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड' का नाम बदलकर "श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड" कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल) का अधिकत पाधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभित हित (प्रवर्तन नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धार 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों/सह कर्जदारों/बंधककर्ताओं को कथित माँग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने

के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं जिसका विवरण नीचे दिया गया है। कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान को सूचना दी जाती है कि एसएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णि बन्धक सम्पत्ति पर 19 **अगस्त, 2**025 को **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतदारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहा न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

कर्जदार का नाम एवं पता

ऋण संख्या CDUDZTF1706030001 1. मेसर्स मयूर इलेक्ट्रिक एंड मशीनरीज (कर्जदार) (प्रतिनिधि श्री भूरी लाल)

पता- बस स्टैंड के पास. बेडवास. देबारी. उदयपर. राजस्थान-313001 2. श्री भूरी लाल पुत्र मोदी लाल औदिच्य (सह-कर्जदार/गारंटर) पता-146, शिव मंदिर, बेडवास, तहसील गिरवा, उदयपुर-313001 3. श्रीमती प्रेमलता शर्मा पत्नी भूरी लाल (सह-कर्जदार/गारंटर) पता-146, शिव मंदिर, बेडवास, तहसील गिरवा, उदयपुर-313001

सांकेतिक कब्जा दिनांक-19-अगस्त-2025 एनपीए- 02-जून-2025

मांग सूचना के अनुसार देय राशि

मांग सूचना दिनांक 10 जून 2025 रु. 30,38,491/- (रुपये तीस लाख अड़तीस हजार चार सौ इक्यानबे मात्र दिनांक 05 जून 2025 तक फोरक्लोजर राशि के अनुसार, नियम व शर्तों के अनुसार अतिरिक्त ब्याज और शुल्क सहित

संपत्ति का विवरण ग्राम बेड़वास, आराजी संख्या 2968, ग्राम पंचायत भोईयों की पंचोली, पंचाय समिति गिर्वा, उदयपुर (राजस्थान) में स्थित आवासीय संपत्ति सहित भूमि और

भवन का समस्त भाग, क्षेत्रफल 2152.50 वर्ग फुट, उदयपुर में स्थित। उत्तर में: लक्ष्मी लाल का प्लॉट, दक्षिण में: देवी लाल और चंपा लाल का मकान, पूर्व में: बंशी लाल का प्लॉट, पश्चिम में: सडक।

प्रतिभत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदा का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किय जाता है।

तिथि : 19 अगस्त, 2025

स्थान : उदयपर

Coforge कोफोर्ज लिमिटेड

CIN: L72100HR1992PLC128382 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 13, उद्योग विहार, फेज-IV, सेक्टर-18, पालम रोड, गुरूग्राम-122015, हरियाणा, भारत

फोन: 0124 - 4627837. ई-मेल: investors@coforge.com, वेबसाइट: https://www.coforge.com

33र्वी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कोफोर्ज लिमिटेड ("कम्पनी" . सदस्यों की 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुल दिनांकित ०८ अप्रैल २०२० १३ अप्रैल २०२० ०५ मई २०२० और नवीनतम सर्कलर नंबर 09 / 2024 दिनांकित 19 सितम्बर, 2024 (सामूहिक रूप से 'एमसीए सर्कुलर' कहे गए हैं) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी संबद्ध सर्कुलर्स तथा नवीनतम सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/133 दिनांकित 03 अक्टूबर, 2023 ('सेबी सर्कुलर') तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के अनुपालन में **शुक्रवार, 26 सितम्बर, 2025 को अप. 04.30 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेन्स सुविधा ('वीसी') / अथवाँ अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम रे

एमसीए सर्कलर्स तथा सेबी सर्कलर्स के अनसार वित्तीय वर्ष २०२४—२५ हेत कम्पनी की वार्षिक . रिपोर्ट, एजीएम के आयोजन की सूचना के साथ, ई–मेल के माध्यम से, यथासमय, उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट ('आरटीए') / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी') के पास पंजीबद्ध है। उपरोक्त दस्तावेज www.coforge.com. स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटस www.bseindia.com तथा www.nseindia.com एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने संबंधी अनुदेश तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रतिभागिता अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का ढंग एजीएम आयोजन की सचना में दिया गया है। भौतिक रूप में अथवा इलेक्टॉनिक रूप में शेयरों के धारक जिन शेयरधारकों, ने अपना ई–मेल पता कम्पनी अथवा संबंधित डीपी के पास पंजीकृत नहीं करवाया उनके लिए लॉगइन क्रेडेन्शियल्स के संबंध में अनुदेश भी सूचना में दिए गए हैं। वीसी / ओएवीएम सविधा के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपर्ति के प्रयोजन हेतू की जाएगी।

भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपने भौतिक शेयर अभौतिक (दीमैटीरियलाइज़्द) रू में परिवर्तित करवाने और भौतिक शेयरों के साथ जुड़े सभी जोखिम समाप्त करने पर विचार करने

ई—मेल पता और बैंक विवरण पंजीकृत करवाने हेतु प्रक्रिया :

भौतिक / डीमैट रूप में शेयरों के धारक सदस्यों, जिनके द्वारा अपनी ई-मेल आईडी'ज पंजीकृत / अद्यतन नहीं करवाई गई हैं, उनसे अनुरोध है कि (i) (डीमैटीरियलाइज्ड शेयरों वे मामले में) संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट से सम्पर्क करें अथवा (ii) (भौतिक शेयरों के मामले में) कम्पनी से investors@coforge.com पर अथवा अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110055 ("आरटीए") से rta@alankit.com पर प्रपत्र आईएसआर-1 (कम्पनी की वेबसाइट https://www.coforge.com/hubfs/Form-ISR-1.pdf पर उपलब्ध है) में हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र पैन कार्ड और पता प्रमाण की स्व–सत्यापित प्रति तथा उक्त प्रत्र में बताए गए अन्य दस्तावेजों सहित भेजकर सम्पर्क करें।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों से उनके नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन / मोबाइल नंबर्स, स्थायी खाता कमांक (पैन) आदेशों नामांकनों पाधिकार पत्र बैंक विवरण जैसे कि बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि के साथ संबंधित परिवर्तनों, यदि कोई, की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयर्स के मामले में उनके दीपी को तथा भौतिक रूप में धारित शेयर्स के मामले में आरटीए अलंकित असादनमेंट्स लिमिटेड को निर्धारित प्रपत्र आईएसआर–1 तथा सेबी सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी— आरटीएएमबी / पी / सीआईआर / 2021 / 655 दिनांकित 3 नवम्बर, 2021 सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी—आरटीएएमबी / पी / सीआईआर 2021/687 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2021 तथा सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी—पीओडी / पी / सीआईआर / 2025 / 91 दिनांकित 23 जून, 2025 अनुसरण में अन्य प्रपन्नों में पेषित करें।

किसी संदेह की स्थिति में सदस्यगण इन्वेस्टर सर्विसेज को investors@coforge.com अथव rta@alankit.com पर लिख सकते हैं।

नोट : कम्पनी ने 15 नवंबर, 2025 से अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड के स्थान पर मैसर्स एमयएफजी इनटाइम इंडिया पाइवेट लिमिटेड को अपना रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेंट . नेयुक्त किया है। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे 15 नवंबर, 2025 तक किसी भी पत्राचार के लिए अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड से सम्पर्क करें और उसको डाक से एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भेजें।

> कोफोर्ज लिमिटेड हस्ता / बरखा शर्मा ACS: 24060

PUBLIC NOTICE

M/s. 9 BY 12 HEMSTECH (H.NO. 23, GF. RAM AVTAR BHAWAN, MAIDAN GARHI. CHATTARPUR SOUTH DELHI SHOP NO.12, DHANWAR VILLAGE, SEC 104, DWARKA EXPRESSWAY, NEAR

> Arb. No.: DL/08/M/SEC/00792 Case Ref. No.: DIAC/7163/11-23

Take notice that the hearing in the above matter is fixed before the Ld. Arbitrator Ms. Abha Malhotra, Advocate on 28 08 2025 at 02:00 PM at Delhi International Arbitration Centre, Delhi High Court Campus, New Delhi. You are required to appear in person or through authorized representative on the said date, failing which the matter may proceed ex-parte.

> By Order of: Delhi International Arbitration Centre

फॉर्म नं.14 विनियमन 33(2) देखें। कार्यालय वसली अधिकारी- ।/।।

RC/342/2025 एचडीएफसी बैंक 19-08-2025

मैसर्स वैष्णो मेटल्स

प्रोपराईटर. श्री संजीव अरोडा. मकान नंबर ई-53 पंजाब रोलिंग मिल्स चौक के पास, संजय कॉलोर्न सेक्टर-23, फरीदाबाद, हरियाणा-121005

म्हण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआस्टी 2) द्वार अपनी संपत्तियों का विवरण एक शपथ पत्र के माध्यम अगली सुनवाई की तारीख से पहले घोषित करें। 4 आपको आदेशित किया जाता है कि आप आगाम

. उपर्यक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित प्राचान करने के लिए भी उत्तरहारी होंगे: (ए) प्रमाण प पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देव ब्याज। (बी) इस सचना औ वारंट तथा अन्य प्रक्रियाओं की सेवा और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में किए गए सभी लागत. प्रभार और व्यय।

दिनांक 19/08/2025 को जारी किया गया।

वसली अधिका

In the matter of Arbitration between:

AAVANA GREENS PVT. LTD.

ALL AHARAD BANK GURUGRAM-122001, HARYANA.

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17 ए, चंडींग (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त जगह आवंटित)

मांग सूचना ऋण बसूली एवं दिवालियापन अधिनयम, 1993 वं न्द्रश जन्तूला एव ।दवाालवापन आधानयम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत नोटिस।

 स्बीन अब्राहम (कर्जदार) To, (सीडी 1) मैसर्स वैष्णो मेटल्स, जरिये एकमा 2. सुसान अब्राहम (सह–कर्जदार) दोनों निवासी : सम्पूर्ण द्वितीय तल, छत के अधिकार नहीं, पी नंबर बी 127 खसरा नंबर 80/15/2, ग्राम पालम,

(सीडी 2) श्री संजीव अरोड़ा पुत्र श्री मनोहरलात अरोड़ा, मैसर्स वैष्णो मेटल्स के प्रोपराईटर, निवासी मकान नंबर ई-53, रोलिंग मिल्स चौक के पास, संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फ्रीदाबाद, हरियाणा। अन्य पताः मकान नंबर 1046, सेक्टर-23,

नद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, पीठासीन अधिकार्र OA/251/2017 में पारित आदेशों के अनुपालन में वसूर खिलाफ रुपये 1355135.25 (रूपये तेरह लाख पचप ाखलाभ रुपय 1555155.25 (रूपय तरह लाख पंचपन हजार एक सी पैंतीस एवं पंचीस पैसे मात्र) तथा 17/02/2017 से लेकर पूर्ण भुगतान तक 18% चक्रवृद्धि मासिक ब्याज दर से भविष्य का ब्याज और रुपये 16005 (सोलह हजार पाँच रुपये) की लागत आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और अलग-अलग/पूर रूप से/सीमित रूप से) देय हो गई है। 2. आपको उपर्युत्त राशि को इस नोटिस के प्राप्ति के 15 दिनों के भीत भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है अञ्ब अधिनियम, 1993' और उसके तहत नियमों के अनुसा की जाएगी। 3. आपको आदेशित किया जाता है कि आ कार्यवाही के लिए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनां 06/11/2025 को प्रातः 10:30 बजे उपस्थित हों।

अधिवक्ताः एस. के. अरोड़ा

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

– 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001 **ग्रीनपार्क शाखाः**– बिल्डिंग नंबर एस–8, उपहार सिनेमा नई दिल्ली–110016 **आगरा शाखाः**–प्रथम तल, समृद्धि कॉम्लेक्स, सुइट नंबर 104–105, ब्लॉक नंबर 38/4ए, संजय प्लेस

प्रीत्म पाक एकसटेशन, नई दिल्ली--10016 आगरा शाखा:--प्रथम तल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, सुब्रट नंबर 104--105, ब्लॉक नंबर 38 / 24, संजय 'लेस, आगरा-282002 प्रितिमृति हित (प्रवर्तन), नियमवली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वितिय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनर्तनिमाण एवं प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय 1111 की धारा 13(2) के अधीन सुवना इम प्रीरम्भा एवं प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे 'अधिनयम' के रूप में लोक कर्ण में अधिन प्रयाद अधिन साथ सुवान के अध्याय 1111 की धारा 13(2) के अधीन सुवना इम प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 (इसमें आगे 'अधिनयम' अधिनयम' के अध्याय 111) की धारा 13(2) अधीन मांस सुवना समें मांस प्रतिमृति कर अपने विशित्त के अध्याय 111 की धारा 13(2) अधीन मांस सुवना तो की था उत्तर समा सुवान कर साथ प्रतिमृति हित प्रवर्तन कर प्रतिमृति होते प्रतिमृति होते प्रतिमृति होते प्रतिमृति कर अध्याय 111 को धारा 13(2) अधीन मांस सुवना तो के अध्याय भाग सुवना प्रतिमृति होते प्रतिम्प सुवित होते प्रतिमृति होते प्रतिम्ति होते प्रतिमृति होते प

ऋण खाता सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता	ग्रांटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	
HOU/DEL/ 0219/6437 51, बी.ओ. दिल्ली	श्री अर्जुन सिंह नेगी और श्री कृत्वन सिंह नेगी पता:1-53 एव, गवनंमेंट स्टाफ क्वार्टर, अम्बेडकर भवन आराम बाग, पहाड़ गंज स्वामी पत्ता तो नई दिल्ली-110055, पता:2- ग्राम-बंगना, अल्मोडा, उत्तराखंड-263601, पता:3- पलेट नंबर टीएफ-46, तीसरी मंजिल, मॉड्यूल-21, वरदान अपार्टमेंट, अभय खंड ॥। इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, श्री अर्जुन सिंह नेगी पता:4 वीडोंक एखुंवर्स प्राइवेट लिमिटेड, दृष्टि द विजन, 525 प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर एसबीआई के पास, नई दिल्ली-110009,	NA	पलैट नंबर टीएफ-46, तीसरी मंजिल, मॉड्यूल-21, वरदान अपार्टमेंट, अमय खंड ।।। इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014,	13.08.2025	13.08.2025 तक रू. 51,79,571.35 /— (रुपये इकावन लाख उनासी हजार पाँच सौ एकहत्तर और पतीस पैसे मात्र)	
1020/8244 46, बी.ओ. ग्रीनपार्क	श्री राजीव सिंह एवं श्रीमती शकुंतला शकुंतला पता:1- 2/36, तृतीय तल, ब्लॉक-2, गीता कॉलोनी, गांधी नगरा नहिल्ली-110031, पता:2- संपत्ति संख्या -8/128-। ब्लॉक-8, क्वार्टर संख्या-128-। द्वितीय तल, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031 श्री राजीव सिंह पता:3- मेसर्स एक्सेल रिपेयर एंड सर्विसेज, तृतीय तल, 2/36, गीता कॉलोनी, नई दिल्ली-110031	NA	संपत्ति संख्या –8/128-। ब्लॉक–8, क्वार्टर संख्या– 128-। दूसरी मंजिल, गीता कॉलोनी, दिल्ली– 110031	13.08.2025	13.08.2025 तक रु. 45,20,851.72 / — (रुपये पँतालीस लाख बीस हजार आठ सो इकावन और बहत्तर पैसे मात्र)	
HOU/GRP/ 0118/4782 43, बी.ओ. ग्रीनपार्क	पंकुल अरनेजा और मोनिका चोपड़ा पता:4— पलेट नंबर—1, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर—115, संकटर—4, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201010, पता:2— पलेट नंबर—726—बी, सातवी मंजिल, टावर—26, गुलमोहर ग्रीन्स, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—20100% श्री पंकुल, अरनेजा पता:3— मंलिंडो एयरवेज एसडीएन बीएचडी, ग्राउंड पलोर—03, के.जी मार्ग, अंसल मवन—16, नई तिल्ली—11000 मोनिका चीपड़ा पता:4— डीएलएफ—कैंपिटल पॉइंट, पहली मंजिल, बाबा खड़क सिंह मार्ग, दिल्ली—110001	NA	पलैट नंबर-726-बी, 7वीं मंजिल, टावर-26, गुलमोहर ग्रीन्स, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तार प्रदेश-201009	13.08.2025	13.08.2025 रु. 77,39,086.93 / — (रुपये सतहत्तर लाख उन्तालीस हजार छियासी और तिरानवे पैसे मात्र)	
0915/2423 42, बी.ओ. ग्रीनपार्क	दिल्ली—110025, पता:2— गाव-माशा, टाउन-हाता, दिही वयाझर, परिशम बंगाल—743702, पता:3— प्राथमिक-806, आठवीं मीजिल, टावर—बी-1, मॉफियस प्रतीक्षा, प्लॉट नंबर-जीएच—16 ए, सेक्टर 01, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 श्री हिमाशु शेखर नायक पता:4— वधुलल एम्लॉई प्राइवेट लिमिटेड, सी—196, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301,	NA	प्राथमिक—806, आठवीं मंजिल, टावर—बी—1, मॉफियस प्रतीक्षा, प्लॉट संख्या—जीएच—16 ए, सेक्टर 01, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301	13.08.2025	13.08.2025 रू. 24.86.002.11/— (रुपये चौबीस लाख छियासी हजार दो और ग्यारह पैसे मात्र)	
0920/8200 16, बी.ओ. आगरा	श्री विक्रम सिंह एवं श्रीमती कविता देवी पता:1— प्लॉट नंबर—1 भाग, खसरा नंबर—573, लाजपुर तिकया, आगरा, उत्तर प्रदेश—282001, पता:2— परिक्रा जनरल स्टोर, प्लॉट नंबर—1 भाग, खसरा नंबर—573, ताजपुर तिकया, आगरा, उत्तर प्रदेश—282001, पता:3— प्लॉट नंबर—39 और 40 का हिस्सा, खसरा नंबर—25, बांके बाग फरहाना, मोल—आगरा, उत्तर प्रदेश—282001,	NA	प्लाट संख्या—39 व 40 का भाग, खसरा संख्या—25, बांके बाग फरहाना, मौजा चमरौली, तहसील—आगरा, उत्तर प्रदेश—282001,		13.08.2025 रु. 14.25,146 / — (रुपये चौदह लाख पच्चीस हजार एक सौ छियालीस मात्र)	
स्थान : ग्रीनपार्क, दिनांकित : 21-08-2025			प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड			

सावर्जनिक सूचना रतदद्वारा जनसाधारण को सचना दी जाती है कि मैं. भरत साह उम्र लगभग 56 वर्ष पता ग्राम नोनियापडी जिला-सीवान पिन कोड 841210, अपनी पुत्री सुजाता से उसकी गलत आदतों के कारण सभी तरह के संबंध समाप्त कर चुका हूँ। मैं अपनी पुत्री को अस्वीकार करता हूँ एवं उसे मेरी सभी चल एवं अचल सम्पत्तियों से बेदखल कर चुका हूँ। मेरी पुत्री सुजाता कुमारी के साथ किसी भी तरह का लेनदेन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा अपने जोखिम एवं जिम्मेदारी पर करेंगे तथा सुजाता कुमारी के किसी भी कार्य, विलेख अथवा किसी भी तरह का लेनदेन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा।

सार्वजिनक स्वाना
आम जनता को किरण मिलक की ओर से खसरा संख्या 247ग
से संबंधित 0.3000 हेक्टेयर औद्योगिक मुनि के संबंध में सूचना
दी जाती है जो ग्राम मुंडियाखुर्द, परगना और तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर में स्थित है, जो तर्रमान में भीमान किरण मिलिक एनी भी रंजन मिलक के पास भी रंजन मिलक पुत्र भी बहादुर चंद के माध्यम से स्वामित्व है, जिन्होंने इस संपत्ति को औमती कमलेश कोर पत्नी भी बताबिंदर सिंह से बिको विलेख पंजीकृत क्रमांक 2318, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्य 964, पृष्ठ 01 से 24 पर, दिनांक 30,06,2008, एसआर-बिलासपुर, जिला रामपुर के माध्यम से खरीदा था। अब, श्रीमती किरण मिलक एयू स्मील फाइनेस बैंक लिमिटेड से तिसीय साहायता प्राप्त रूपने लिए बंबक रखना चाहती हैं। यह कि, श्री गुरसेवक सिंह पुत्र श्री जगीर सिंह द्वारा श्रीमती कमलेश कौर पत्ती श्री बलाविर सिंह को का में निष्पादित मूल बिक्री विलेख जो उप जिल्ह्यार—बिलासपुर, जिला रामपुर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 717, पूछ नाश से 202 पर, कमांक 4828, दिनांक 3008.2006 को पंजीकृत किया गया था जो खो गया है। बैंक / एनबीएफसी की आवस्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, इम यह सार्वजनिक सुचना देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास जन स्मील एन किसी भी प्रकार का वादा। अधिकार / स्वामित्व / वित / बंबक बनाने में कोई आपित है तो वह आज से 7 दिनों के शीतर अपनी आपित्यों के बारे में नीचे दिए गए पत्ते पत्तिकत कर में सुचीव कर सकता है। ऐसा नी दिए गए पति पति लिंदा कर में सुचीव कर सकता है। ऐसा नी दिए गए पते पर लिखित रूप में सूचित कर सकता है। ऐसा व करने पर यह माना जाएगा कि उक्त संपत्ति सभी प्रकार के मार ग्रहणाधिकार आदि से मुक्त है। लुसेम लीगल एलएलपी प्लॉट नंबर 138, (बेसमेंट) उदय पार्क, नई दिल्ली—110049, संपर्क # 011-40046316

केंद्र सरकार, कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा के समक्ष

न्यूट्रेक्सा इंटरनेशनल (LLPIN-ACN-9227), पंजीकृत कार्यालय एल-1/66 मोहन गार्डन उत्तम नग दिल्ली-110059 के मामले में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूट्रेक्स

इंटरनेशनल एलएलपी. दिल्ली एवं हरियाणा के कंपनी

रजिस्ट्रार को एक याचिका प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता है। सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत, दिल्ली एवं हरियाणा व रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र के तहत एलएलपी नियम 2008 के नियम 17(4) के अनुसार, पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "मध्य प्रदेश राज्य" में बदलने की अनुमति की मांग करता है। कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृ

कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने के संभावना है, वह अपने हितों की प्रकार और विरोध व आधारों का उल्लेख करते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियां पंजीकृत डाक द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा, जिसका कार्यालय चौथी मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर भेज सकता है. जिसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी के उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भेजनी होगी

एल-1/66, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली-110059 कृते और याचिकाकर्ता की ओर से कृत आर यापकाकता का आर र न्यूट्रेक्सा इंटरनेशनल एलएलपी (अर्पित सिंह) नामित भागीदार डीन—11077394 स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 21.08.2025

Navigate markets with focused insight.

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights every day with The Compass in Business Standard

To book your copy. SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

स्थान : गुरूग्राम

तिथि : अगस्त 20, 2025

दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड

ह./-अधिकृत प्राधिकार्र

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

CIN: L29130HR1986PLC081555 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 24,25,26, आईएमटी मानेसर, सेक्टर-7, गुरुग्राम-12050, हरियाणा कार्पो. कार्यालय : मिलेनियम प्लाजा, टावर-बी, सुशान्त लोक-।, सेक्टर-27, गुरूग्राम-122009, हरियाणा. फोन : + 91(124) 4715100

तिथि : अगस्त 20, 2025

रथान : नोएडा

वैबसाइट : www.thehitechgears.com, ई-मेल : secretarial@thehitechgears.com कम्पनी की 39वीं वार्षिक सामान्य बैठक तथा 100 दिवसीय "सक्षम निवेशक' अभियान के संबंध में जानकारी के विषय में सदस्यों हेतु सूचना

रतदद्वारा सूचना दी जाती है कि **हाई—टेक गियर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 39वीं** वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') शनिवार, सितम्बर 27, 2025 को सायं 05.00 बजे (आईएसटी) बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 24, 25, 26, सेक्टर-7, **आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा—122050** में कम्पनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित "अधिनियम") की धारा 110 के साथ पठित 108 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई, के साथ पठित कम्पनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित ("नियमावली") के नियम 20 और 22, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियमावली. २०१५ ("सेबी(एलओडीआर) विनियमावली. २०१५") के विनियम ४४. कार्पोरेट कार . मंत्रालयः भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र 14 / 2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, 17 / 20 देनांकित अप्रैल 13, 2020, 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, 22/2020 दिनांकित जून 15 2020, 9/2023 दिनांकित सितम्बर 25, 2023 तथा 9/2024 दिनांकित सितम्बर 19, 2024 वे साथ पठित अन्य प्रासंगिक परिपत्र ("एमसीए परिपत्र"), सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD PoD 2/P/CIR/2024/133 दिनांकित अक्टूबर 03, 2024 के साथ सेबी द्वारा जारी पूर्वतर परिपत्रों ("सेबी परिपत्र"), इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") तथा किसी अन्य लागू कानून, नियमों तथा विनियमों (अस्थायी रूप से लागू उनके किसी सांविधिक संशोधन(नों) अथवा पुनर्—अधिनियमन(नों) सहित) के अनुपालन में वीडियो , कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") अथवा अन्य ऑडियो विज्अल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम भाग लेने की सुविधा के साथ, 39वीं एजीएम की सूचना ("एजीएम") में सूचीबद्ध व्यवसायों के नेष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। अतः सदस्यगण एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भी जड सकते हैं और भाग ले सकते हैं तथा कम्पनी अपने सभी सदस्यों को ई–वोटिंग तथा रिमोट –वोटिंग की सविधाएं भी उपलब्ध करवा रही है।

एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेर् वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल इलेक्टॉनिक विधि द्वारा उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनकी —मेल आईडी कम्पनी अथवा रजिस्टार ऐंड शेयर टांसफर एजेन्ट (आरटीए) अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स (डीपी'ज) के पास पहले से पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त रजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2024—2025 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.thehightechgears.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट www.bseindia.com बीएसई लिमिटेड) एवं <u>www.nseindia.com</u> (नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) फ भी उपलब्ध होंगी। एक पत्र, जिसमें एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए वेब—लिंक, सटीक पथ सहित, उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके द्वारा कम्पनी / डिपॉजिटरी के पास अपना ईमेल पता पंजीकत नहीं करवाया गया है।

एजीएम से जुड़ने हेतु अनुदेश तथा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भाग लेने अथवाा एजीएम व दौरान ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि का वर्णन एजीएम की सूचना में किया जाएगा | वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूति के लिए की जाएगी।

यदि आपने अपनी र्द—मेल आर्दडी कम्पनी अशवा आरटीए अशवा अपने संबंधित डीपी'ल के पार पंजीकृत नहीं करवाई है, तो कृपया एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग / वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम से जुड़ने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाने के लिए निम्न अनुदेशों का अनुसरप

एक अनुरोध कम्पनी के आरटीए नामतः एमएएस सर्विसेज लिमिटेड टी-34 दितीय भौतिक तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-2, दिल्ली-110020 को कम्पनी की वेबसाइट धारण www.thehitechgears.com से इन्वेस्टर्स टैब के तहत तथा आरटीए की वेबसाइट <u>www.masserv.com</u> से डाउनलोड टैब के तहत डाउनलोड किए जा सकने वाले प्रपत्र मं आर्दण्सुआर—1 में विधिवत भर कर भेजें। आप प्रपन्न सं आर्दण्सुआर—1 आरटीए की ई–मेल आईडी <u>investor@masserv.com</u> को उसकी प्रति कम्पनी के secretarial@thehitechgears.com पर अंकित करते हुए भेज सकते हैं।

अभौतिक कपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा अपनी ई—मेल आईर्ड डीपी द्वारा सझाई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकत करवाएं। कुपया अपना बैंक विवरण भी अपने डीपी के पास एनएसीएच द्वारा अंतिम लाग भुगतान के लिए अद्यतन करें, यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा मई 29, 2025 को आयोजित इसकी बैठक में मार्च 31, 2025 को समाप्त वित्तीय वष के लिए रुपये 10 अंकित मुल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रुपये 5.00 का अंतिम लाभांश अनुशंसिक किया गया है. जो 39वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनमोदन के अधीन है। कम्पनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अंतिम लाभांश के भूगतान हेत् सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु शुक्रवार सितंबर 19, 2025 की तिथि रेकार्ड तिथि नियत की है।

जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतन कर लिया है, उन्हें लाभांश का भुगता इलेक्टॉनिक माध्यम से किया जाएगा। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, जिन सदरयों वे शेयर डीमैट मोड में हैं. उनसे अनरोध है कि वे अपनी डिपॉजिटरी में अपना केवाईसी अद्यतन कर त और यदि सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं तो लाभांश का भगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से तभी किया जाएगा, जब वे कम्पनी के आरटीए के पास अपने संबंधित भौतिक फोलियो के लिए अपना स्थायी खाता संख्या, सम्पर्क विवरण (डाक पता, मोबाइल नंबर और ई–मेल), बैंक खाता विवरण, नमन हस्ताक्षर आदि प्रस्तत कर देंगे।

ट्यके अतिरिक्त निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) के पत्र दिनांकित जलाई 18, 2025 के अनुसरण में, आपकी कम्पनी ने जुलाई 28, 2025 से नवंबर 6, 2025 तक 100–दिवसीर अभियान – 'सक्षम निवेशक' आरंभ किया है। इस अभियान के दौरान, वे सभी शेयरधारक जिन्होंने पिछले सात वर्षों से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है या जिन्होंने अपना केवाईसी अद्यतन नर्ह किया है या दावा नहीं किए गए लाभांश और शेयरों से संबंधित कोई भी समस्या का सामना कर रहे है वे अपने शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने से रोकने के लिए कम्पनी के आरटीए के

है ताकि वे अपने केवाईसी, बैंक अधिदेश, नामांकित व्यक्ति, सम्पर्क जानकारी, अन्य आवश्यक विवरण अद्यतन कर सकें और सदस्य उपर्युक्त वित्तीय वर्षों के लिए अपने लाभांश का दावा भी कर सकते है गकि उनके लाभांश और शेयरों को आईईपीएफए में अंतरित होने से रोका जा सके। किसी संदेह की स्थिति में, सदस्यगण आरटीए से उपरिवर्णित पते पर सम्पर्क कर सकते हैं एवं ईमेल

सदस्य यह भी ध्यान रखें कि यह अभियान विशेष रूप से सदस्यों तक पहंचने के लिए आरंभ किया गय

आईडी पर लिख सकते हैं जिसकी प्रति कम्पनी को अंकित की जानी चाहिए।

वास्ते दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड हस्ता./ नवीन जैन (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड **सीआईएन :** L74899DL1995PLC073281 PPAP

पंजीकत कार्यालय : 54. ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज- ।।। नई दिल्ली- 110020 निगमित कार्यालय: बी- 206ए. सेक्टर- 81. फेज- 11. नोएडा- 201305. उत्तर प्रदेश

दूरभाष: +91-120-4093901 -वेबसाइट : www.ppapco.in, ईमेल आईडी : investorservice@ppapco.com

सूचना

पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड ('कंपनी') की 30वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 2 सितंबर, 2025 को पूर्वाह 11:30 बजे (भारतीय मानक समय) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी') अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से, कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधा के अनुपालन में, सदस्यों की उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनिय 2013 के लाग प्रावधानों के अनुपालन में. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और 9/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 के साध पढ़ा गया है, सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी–पीओडी–2 / पी , सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 के साथ पढ़ा गया सेबी मास्टर परिपर संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी२ / सीआईआर / पी / 0155 दिनांक 11 नवंबर 2024 व साथ पढा गया. जिसने सचीबद्ध संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट इलेक्टॉनिक मोड में भेजने की अनुमति दी है (सामूहिक रूप से परिपत्र के रूप में संदर्भित)। उक्त बैठक का स्थान कंपन का पंजीकृत कार्यालय, 54, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज ।।।, दिल्ली 110020 माना जाएगा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और वार्षिक रिपो की सचना उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिनके ईमेल प कंपनी / एमयएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टार एवं टांसफर एजेंट ('आरटीए') / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं। जिन शेयरधारकों के ईमेल . पते पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें वेब–लिंक, सटीक पथ सहित, प्रदान किया जाएँगा, जहाँ वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, यह कंपनी की वेबसाइट www.ppapco.in और आरटीए की वेबसाइट http://www.in.mpms.mufg.com पर भी उपलब्ध होगा। सदस्यगण इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटे ('बीएसई') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') की वेबसाइट क्रमश www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यगण वृ पया ध्यान दें कि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान रिमोट ई—वोटिंग / ई—वोटिंग और वार्षि आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचन

में प्रदान की जाएगी। सदस्यगण कपया यह भी ध्यान दें कि कंपनी के निदेशक मंडल ने शक्रवार 16 मई. 2025 क आयोजित अपनी बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, 10 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 1.5 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लागांश की सिफारिश की है। अंतिम लागांश यदि घोषि किया जाता है तो उन सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड़ के माध्यम से भगतान किया जाएगा जिन्हों डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी के साथ और भौतिक रूप में शेयरों व मामले में आरटीए के साथ अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रिजस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स वार्षिक आ बैठक के उद्देश्य से और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए गुरुवार 18 सितंबर, 2025 से बुधवार, 24 सितंबर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लाभांश प्राप्त करने हेर्नु पात्र सदस्यों के निर्धारण हेतु रिकॉर्ड तिर्धि बधवार. 17 सितंबर. 2025 है

. गदस्यगण यह भी ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 196 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा भूगतान या वितरित किय गया लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। दसलिए कंपनी को अंति लाभांश के भुगतान के समय स्रोत पर कर (टीडीएस) कार्टना आवश्यक होगा हमें लागू होने वाली उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों . अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार व nttps://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html लिंव पर शक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को या उससे पहले दस्तावेज जमा करें ताकि कंपनी उचि टीडीएस दर निर्धारित कर सके।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि सेबी ने रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटों को जारी अप मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 दिनांक ७ मई, २०२४ और संशोधित सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 दिनांक 1 जुन, 2024 के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि 1 अप्रैल. 2024 से भौतिक रूप में शेय रखने वाले सुरक्षा धारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले पात्र शेयरधारकों को ऐसे भगतान केवल तभी किए जाएंगे ज उन्होंने कंपनी या आरटीए को अपना पैन, संपर्क विवरण (पिन और मोबाइल नंबर सहित डाव पता). बैंक खाता विवरण और अपने संबंधित भौतिक फोलियो के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुः किए हों। इसलिए, बिना पैन और केवाईसी विवरण वाले फोलियो वाले शेयरधारकों को उपरोत्त सेबी परिपत्रों के अनुसार भौतिक लाभांश वारंट जारी नहीं किया जाएगा। वे शेयरधारव आरटीए / कंपनी के साथ केवाईसी विवरण अपडेट करने के बाद ही इलेक्टॉनिक रूप से अपन लाभांश प्राप्त कर सकते हैं।

डीमैटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनरोध है कि वे संबंधित डीपी के सा अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध कि वे सेबी द्वारा निर्दिष्ट भौतिक आईएसआर फॉर्म भरकर हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध हस्ताक्षरि अनुरोध पत्र के साथ कंपनी के आरटीए के साथ अपने ईमेल पते अपडेट करें, जिसमें उनक फोलियो नंबर, नाम, शेयर प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन का की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गः प्रति) का उल्लेख उनके ईमेल पते और अन्य केवाईसी विवरणों को पंजीकृत करने के लिए हो सदस्यों का ध्यान सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 देनांक 2 जलाई. 2025 की ओर भी आकर्षित किया जाता है जो "भौतिक शेयरों के हस्तांतर अनुरोधों को पुनः जमा करने हेतु विशेष विंडो" पर जारी किया गया था। यह सुविधा 1 अप्रैल 2019 से पहले जमा किए गए उन हस्तांतरण विलेखों के लिए उपलब्ध है, जिन्हें बाद दस्तावेजों / प्रक्रिया / या अन्य कारणों से अस्वीकार / वापस कर दिया गया / जिन्हें स्वीकार ना किया गया।

यह विशेष विंडो 7 जुलाई, 2025 से खुली है और 6 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी। पात्र शेयरधारकों को मूल हस्तांतरण दस्तावेज या छूटे हुए विवरण आरटीए को जमा करने होंगे। इस अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुनः जमा की गई प्रतिभूतियाँ केवल डीमैट मोड में जार्र की जाएँगी। किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, कंपनी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम् पदाधिकारियों से संपर्क करें:-

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच—2, 🛮 54, ओखला औद्योगिक एस्टेट सी—1 ब्लॉक एलएससी. सावित्री मार्केट के पास फेज ।।। नई दिल्ली-110020 जनकपरी. नई दिल्ली— 110058 ईमेल आईडी : investorservice@ppapco.com

स्थान : नोएडा

ईमेल : delhi@in.mpms.mufg.com कृते पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटे दिनाँक : 20 अगस्त 2025

पंखुड़ी अग्रवा कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकार कंपनी से संपर्क करें।

दिनांक: अगस्त २० २०२५

स्थानः नोएडा

info**edge**

इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1995PLC068021 | पंजीकृत कार्यालयः जीएफ—12ए, 94, मेघदूत बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—19 कॉर्पोरेट कार्यालयः बी—8, सेक्टर—132, नोएडा—201304 (उत्तर प्रदेश) | दूरमाषः +91-120-3082000; फैक्सः +91-120-3082095

100 दिवसीय अभियान — "सक्षम निवेशक" से संबंधित शेयरधारकों को सूचना

कंपनी के शेयरधारकों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ('आईईपीएफए'), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए'), भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2025 के निर्देशों के अनुसार सुचित किया जाता है कि इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड ('कंपनी') ने उन शेयरधारकों के लिए 28 जुलाई, 2025 से 6 नवंबर, 2025 तक **'100 दिवसीय** . **अभियान – सक्षम निवेशक'** शुरू किया है, जिनके लाभांश का भूगतान / दावा नहीं किया गया है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि यह अभियान विशेष रूप से कंपनी के शेयरधारकों तक पहुँचने के लिए शुरू किया गया है ताकि उन्हें अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश का दावा करने और अपने केवाईसी, बैंक अधिदेश, नामांकित व्यक्ति और संपर्क जानकारी को अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम किया जा सके। इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने विवरण अद्यतन करें और अवैतनिक / दावा न किए गए लाभांश का दावा करें ताकि उनके शेयर या लाभांश को आईईपीएफए को हस्तांतरित होने से रोका जा सके।

जबिक अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश वाले शेयरधारकों के लिए शेयरों पर लाभांश केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देय है, इसलिए आवश्यक जानकारी / दस्तावेजों के अद्यतन होने के बाद ही राशि शेयरधारक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। भौतिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे तदनुसार अपने केवाईसी अपडेट पूरा करें। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले और अपने लाभांश का दावा नहीं करने वाले शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने विवरण को अद्यतन / संशोधित करके इसका दावा कर सकते हैं।

सभी शेयरधारक जिनके पास अवैतनिक / अदावाकृत लाभांश है या जिन्हें अपने केवाईसी, बैंक अधिदेश, नामिती और संपर्क जानकारी को अद्यतन करने की आवश्यकता है, उनसे अनुरोध है कि वे https://web.in.mpms.mufg.com/client-downloads.html से या कंपनी की वेबसाइट https://www.infoedge.in/InvestorRelations/Investor_Services_CS_ से फॉर्म डाउनलोड करें और हस्ताक्षरित फॉर्म को केवाईसी दस्तावेजों के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को जमा करें:

डाक द्वाराः भौतिक प्रतियां, स्व-सत्यापित, दिनांकित और पते एमयूएफजी, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच २ सी —1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 को संबोधित करें

ईमेल द्वारा: अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों के साथ (संयुक्त होल्डिंग के मामले में पहले संयुक्त धारक को हस्ताक्षर करना होगा) इस पते पर भेजें:rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com इस अभियान की सफलता में सहयोग के लिए, कृपया 6 नवंबर, 2025 तक अपने दस्तावेज जमा करें।

100 दिवसीय अभियान — ''सक्षम निवेशक'' से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, कृपया <u>investors@naukri.com</u> पर

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड

जया भाटिया कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी